Financial Ruulli for the Quarter ended on 31st Dec., 2018

III Net Profit / (Loss) for the period before tax				THE RESERVE OF
(after Exceptional and/or Extraordinary items#) IV Net Profit / (Loss) for the period after tax		3.05	(99.97)	1.63
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)		1.95	(70.28)	1.63
V Total Comprehensive Income for the period (Compris for the period (after tax) and Other Comprehensive In	ing Profit / (Loss)	50.03	THE REAL PROPERTY.	Tarret Pales
VI Equity Share Capital	and failer taxy)	914.02	(117.76)	(188.93)
VII Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown Balance Sheet of the previous year	in the Audited	514.02	914.02	914.02
/III "Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each)			en la	(10) 2 - 45)
(for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:		0.02	(0.77)	1,91
2. Diluted:"	off a season and	0.02	(0.77)	0.02
The above is an extract of the detailed format of Quart of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requireme are available on the websites of the Stock Exchange(s) The figures of the previous periods have been regroup.	and the listed entity at	. The full format	of the Quarter	inder Regulation 3 ly Financial Resul
Tolume .	od rougssilled wilelay			
	2	ror	mercom cap	ital Markets Ltd
ace : New Delhi	S. C. LEWIS LOT			Vijay Meht
te : 13.02.2019			, We	maging Directo
RAMA VI	Manager 1		the distribution of	DIN: 0005715
Tel.: 05944-264263; Website: www.ramay CiN: L3220:				om
Extract of Standalone Unaudited F months ended	31st December, 201	8	(Rs. in La	ikh except EPS
Particulars	Quar	rter Ended	(Rs. In La	Nine Months
Particulars —	Quar 31.12.2018	rter Ended	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (i.pss) for the period (hefee to:	Quar	rter Ended	(Rs. in La	Nine Months ended
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before lax.	Quar 31.12.2018	rter Ended	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31.12.2018 931.79	31.12 771.50	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 2631:23
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before lax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	31.12.2018 931.79 5.63	8 rter Ended 31.12 771.50 (6.82)	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 263123 24.52
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	31.12.2018 931.79 5.63 4.16	8 rter Ended 31.12 771.5((6.82) (6.82)	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 2631123 24.52 24.52
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	31.12.2018 931.79 5.63	8 rter Ended 31.12 771.50 (6.82 (6.82)	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 263.123 24.52 17.48
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63	8 rter Ended 31.12 771.50 (6.82 (6.82 (5.07)	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 2631123 24.52 24.52
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the prévious year Earnings Per Share (of Rs. 10/s. each)	31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16	8 rter Ended 31.12 771.50 (6.82 (6.82 (5.07)	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 263.123 24.52 17.48
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76	8 rter Ended 31.12 771.5(6.82 (6.82) (5.07) 1002.63	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 2631.23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basis: 2. Diluted:	31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76	8 rter Ended 31.12 771.50 (6.82 (6.82) (5.07) (5.07) 1002.63	(Rs. in La	Nine Months ended 31.12.2018 2631.23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted: e : 1 The above unaudited financial results were revirectors at their meeting held on February 13, 2019 he above financial results. he above unaudited financial results prepared in accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Iffective April 1, 2018, the Company has advanted.	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76 0.04 0.04 0.04 ilewed by the Audit Companies Act, 2013 radian Accounting St.	(6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.05) (0.05) (0.05) (0.05) Committee an tors have carr nies (Indian A ead with Rule andard) Acco	d approved bied out a Lim ccounting Sta 3 of the Com unting Rules,	Nine Months ended 31.12.2018 2631.23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63 0.17 0.17 y the Board of ited Review of ited Review of panies (Indian 2016.
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Eamings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1, Basic: 2. Diluted: te: 1 The above unaudited financial results were revolrectors at their meeting held on February 13, 2019 he above financial results. The above unaudited financial results prepared in accidits (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Coccounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Infective April 1, 2018, the Company has adopted in the assessment done by the management there eriod.	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76 0.04 0.04 iewed by the Audit C. The Statutory Audit Ordance with Compa ampanies Act, 2013 radian Accounting St. dAS 115 'Revenue is no material impacts no material impacts on material impacts on material impacts of the statutory and the statutory audit ordance with Compa ampanies Act, 2013 radian Accounting St. dAS 115 'Revenue is no material impacts on material impacts of the statutory audit ordance with Compa ampanies Act, 2013 radian Accounting St. days of the statutory audit ordance with Compa ampanies Act, 2013 radian Accounting St. days of the statutory audit ordance with Compa ampanies Act, 2013 radian Accounting St. days of the statutory audit ordance with Compa ampanies act, 2013 radian audit ordance with Compa and	(6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.07) (5.07) 1002.63 (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (d approved bied out a Lim ccounting Sta 3 of the Comunity Rules, cts with customue recognis	Nine Months ended 31.12.2018 2631.23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Dilluted: te: 1 The above unaudited financial results were revolrectors at their meeting held on February 13, 2019 he above financial results. The above unaudited financial results prepared in acceptation of the company of the Company has adopted in the assessment done by the management there in the assessment done by the management there is not a published. The profit of the Set of the Set of the Profit of t	31.12.2018 931.79 5.63 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76 0.04 0.04 ilewed by the Audit Companies Act, 2013 radian Accounting State Act and Accounting State Accounting State Act and Accounting State Act and Accounting State Accounting State Accounting State Accounting State Accounting	(6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.07) (5.07) 1002.63 (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) Committee and the reverse and the	d approved be died out a Lim cocounting State out of the Community of the	Nine Months ended 31.12.2018 2631:23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted: e : 1 The above unaudited financial results were revolved to the previous year of the previous year. e : 1 The above unaudited financial results were revolved to the previous year of the previous year. e : 1 The above unaudited financial results were revolved to the previous year of the previous year of the company 13, 2019 ne above inancial results. e : 1 The above unaudited financial results prepared in acception of the previous year of the company has adopted in the assessment done by the management there eriod. he company mainly operates only in one segment in exception of the previous period and / or year have been above is an extract of the detailed format Of Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 33 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 34 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 34 of the SFR (isting and Other Nither Regulation 34 of the SFR (isting and Other Nither Regula	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76 0.04 0.04 ilewed by the Audit C. The Statutory Audit Ordance with Company ampanies Act, 2013 rudian Accounting St. da S. 115 'Revenue's no material impact amely "Trading Active and regrouped or rearerly Annual Financia sclosure Requirement on the on Company on the on Company	(6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.05) (0.05) (0.05) (0.05) Committee an dard) Accoording the reversities and hen ranged where all Results filed this Regulation's website we	d approved being of the Comuning State with customure recognism of the Comunity Rules, and the Comunit	Nine Months ended 31.12.2018 2631.23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1002.65 1
Particulars Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted: e: 1 The above unaudited financial results were revirectors at their meeting held on February 13, 2019 he above innancial results. he above unaudited financial results prepared in accident of the previous year and Companies (Infective April 1, 2018, the Company has adopted in the assessment done by the management there eriod. he company mainly operates only in one segment required to be published. guers for the previous period and / or year have been above is an extract of the detailed format of Ouriel above.	31.12.2018 31.12.2018 931.79 5.63 5.63 4.16 4.54 1002.63 742.76 0.04 0.04 ilewed by the Audit C. The Statutory Audit Ordance with Company ampanies Act, 2013 rudian Accounting St. da S. 115 'Revenue's no material impact amely "Trading Active and regrouped or rearerly Annual Financia sclosure Requirement on the on Company on the on Company	(6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.82) (6.05) (0.05) (0.05) (0.05) Committee an dard) Accoording the reversities and hen ranged where all Results filed this Regulation's website we	d approved being of the Comuning State with customure recognism of the Comunity Rules, and the Comunit	Nine Months ended 31.12.2018 2631:23 24.52 24.52 17.48 18.78 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1002.63 1

Published on Page 3
of Money Makus,
Delhi Editim in
ils Pasue dtd. 14/02/2019.

morey makers delli 14/2

Financial Ruelle fox the Quarter ended on 31st Deg 2018.

T 12%)=112 18-19 विद्युत धारचूला के वी. उपसंस्थान त्वी. वे मय 33 इ.वी. वे मय 33 **हर, 01 नग 33** 2 नग लाईन नग 33 के.वी. । करने सम्बन्धी ध.रा. रु.-दा शुल्क क. 12%)=560 18-19 विद्युत डीडीहाट के 1- थल के एल.टी. लाईनों नों में 181 नग गाये जाने हेतु न कार्य। घ.रा. T 12%)=280 डीडीहाट के ा- थल के एल.टी. लाईनों

निविदा शल्क 18-19 विद्यत ानों में 181 नग लगाये जाने ध.रा. रु.-दा शूल्क रु. 12%)=560 118-19 विद्युत धारचला के रेला में लोक अस्कोट द्वारा क्षतिग्रस्त 11

लाईन स्थापित करने .- 10000.00 ₹. 250+30 जली बचायें' र 1912 पर र्ज करायें। शासी अभियन्ता खण्ड, धारचूला 13.02.2019

1. Name of Work:- Construction of Proposed Government Degree College Majra Mahadev, Pauri Garhwal. 2. Estimated Cost - Rs 367.65 Lac 3. Earnest Money - Rs 7.36 Lac 4. Cost of Tender Document - Rs. 5000.00 + 18% GST 5. Document Download Start Date - 14.02.2019 1500 Hrs 6.Bid submission End Date - 28.02.2019, 1500 Hrs 7. Date of Technical Bid Opening - 28.02.2019, 1530

The details of e-tender of above work can be obtained directly from website. http://tenderwizard.com/BRIDCUL. Changes if any will be intimated only through our website http://tenderwizard.com/BRIDCUL.

Project Manager

(सी

प्राधि

35

कु.

स्व

तिव तिव

श्रीम

नाव

हाल

chr

(3.

बना

विप

तिव

तिव

300

को

पा

चा

निर

खा

उव

सन

न्या

कि

अर

उप

प्रव

प्रथ

नि

20

न्य

गर

रामा विजन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : वार्ड नं. 3, बरेली रोड, किच्छा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-263148 Tel.: 05944-264263; Website: www.ramavisionltd.com; Email:sehgal@ramavisionltd.com CIN: L32203UR 1989PLC015645

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के एकल असंप्रेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

丽.	विवरण		तिमाही समाप्त				
सं.		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018			
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	931,79	771.50	2631.23			
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/या विशिष्ट महों से पूर्व)	5.63	(6.82)	24.52			
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या विशिष्ट मदों के पश्चात)	5.63	(6.82)	24.52			
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या विशिष्ट मदों के पश्चात)	4.16	(5.07)	17.48			
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(अवधि के लिए लाभ (कर पंश्वात) (और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)शानिल]	4,54	(5.07)	18.78			
6.	इतिवटी शेयर पूंजी	1002.63	1002.63	1002.63			
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्याकित आरक्षित को छोड़कर), जैसा कि गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित हैं	742.76					
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (प्रवाही एवं गैर प्रवाही संचालनों के लिए) रु. में:-						
N.	1. मृत	, 0.04	(0.05)	0.17			
08	2 तनकर	200					

नोट:-

स्थान- नई दिल्ली

दिनांक- फरवरी 13, 2019

1. उपरोक्त असंप्रक्षित वित्तीय परिणांमों की आडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गयी तथा निदेशक मण्डल ने अपनी फरवरी 13, 2019 को बैठक में इसका अनुमोदन कर लिया है। सांविधिक सम्प्रेक्षकों ने उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा कर ली गयी है।

2. डपरोक्त असंप्रेषित वित्तीय परिणाम कम्पनीजं के (इण्डियन एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड) रुल, 2015 (IND-AS) कम्पनी एक्ट 2013 के सैक्शन 133 में निर्धारित तथा कम्पनी (इण्डियन एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड) रुल 2015 के रुल 3 के साथ पठित तथा कम्पनीज (इंग्डियन एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड) रुल 2016 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. कम्पनी ने अप्रैल 2018 से प्रभावी Ind AS 115 प्राहकों संग सम्पर्क से राजस्व' अंगीकार किया है। प्रबन्धन द्वारा किए गए निर्धारण से अवधि में राजस्व में कोई भौतिक उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पाया गया।

4. कम्पनी मुख्यतया सिर्फ एकल खण्ड 'व्यापारिक क्रियाकलाप' नाम से संचालित है तथा इस प्रकार खण्ड व्यौरा के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

5. विगत अविध तथा/या वर्ष के आंकड़े जहां जरुरी समझा गया पुनः वर्गीकृत या पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

6. उपरोक्त सेवी (समीकरण, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनिमय 2015 के विनिमय 33 के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेन्ज को दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप है। पूर्ण प्रारूप तिमाही /वार्षिक वित्तीय परिणाम कम्पनी एक्सचन्ज का दाखिल तिमाहा/बारिक विराध नार्यात नार्यात की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। की वैबसाइट www.ramavisionItd.com तथा बीएसई की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। संचालक मण्डल के लिए और ओर से

हस्ताक्षर/-सतीश जैन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक्र

The Published on Page II

The Debished on Page